



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3600]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939

No. 3600]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

का.आ. 4122(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिला में “पारादीप—हल्दिया—दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन और इसका पटना और मुजफ्फरपुर तक विस्तार” एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए; और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ समझदार, सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी,—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन विभाग), पो. औ. -दूइल्या, आन्दुल—मौडी, मौडीग्राम, हावड़ा, 711302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील - दुबराजपुर	जिला - बीरभूम	राज्य - पश्चिम बंगाल		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
चिटगांव	425	00	02	20
	424	00	02	90
	208/463	00	16	98
	405/462	00	00	70

	405/461	00	09	02
	405	00	08	06
	404	00	00	10
	363	00	11	86
	364	00	00	64
	365	00	05	38
	362	00	02	46
	366	00	02	68
	367	00	07	30
	368	00	02	56
	355	00	01	92
	369	00	01	00
	354	00	06	26
	353	00	02	82
	351	00	00	52
	352	00	01	40
	340/444	00	00	20
	340	00	11	22
	344	00	03	44
	341	00	03	22
	335	00	03	98
	334	00	05	95
	270	00	02	45
	333	00	01	52
	256	00	00	70
	330	00	00	45
	332	00	06	90
	260	00	00	16
	307	00	03	96
	289	00	01	80
	288	00	00	42
	290	00	04	22
	287	00	01	48
	282	00	07	34
	292	00	01	90
	293	00	04	48

	294	00	03	20
	296	00	01	64
दक्षिण मदनपुर	1465	00	00	28
	1334	00	16	86
	1327	00	03	76
	1332	00	00	10
	1335	00	09	42
	1331	00	04	92
	1336	00	09	98
	1232/1415	00	01	45
	1222	00	05	86
	1223	00	02	68
	1220	00	05	65
	1225	00	03	05
	1219	00	01	74
	1097	00	05	08
	1213	00	00	10
	1106	00	04	92
	1107	00	01	56
	1105	00	01	78
	1099	00	03	85
	1100	00	02	85
	1094	00	02	06
	1093	00	04	22
	1091	00	04	66
	1087	00	00	75
	1088	00	02	08
	1089	00	01	46
	1086	00	01	38
	1085	00	02	65
	1084	00	02	22
	1090/1484	00	03	94
	1083	00	00	98
	1078	00	03	24
	1044	00	08	02

	1045	00	04	40
	1049	00	03	10
	999	00	05	62
	998	00	05	55
	1001	00	00	14
	1002	00	02	72
	997	00	02	66
	960	00	15	68
	918/1468	00	07	92
	917	00	10	66
	815/1474	00	15	34
	815	00	09	88
	817	00	04	26
	816	00	06	68
	818	00	06	28
	863	00	02	28
	819	00	03	58
	820	00	03	48
	821	00	00	60
	822	00	03	32
	824	00	01	30
	823	00	08	08
	350	00	02	85
	349	00	04	10
	346	00	03	58
	347	00	02	32
	331	00	02	54
	330	00	03	18
	321	00	02	34
	329	00	04	98
	323	00	00	62
	326	00	01	20
	327	00	04	30
	328	00	04	56

तहसील - दुबराजपुर	जिला - बीरभूम	राज्य - पश्चिम बंगाल		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
पाइगरा	1037	00	05	36
	1039	00	03	56
	1039/1145	00	03	26
	1040	00	02	55
	1041	00	05	54
	1044	00	04	06
	1045	00	11	60
	1047	00	04	56
	1048	00	03	84
	1029	00	04	20
	1028	00	03	22
	1018	00	04	16
	1017	00	02	42
	1016	00	03	28
	1014	00	06	82
	1015	00	10	72
	921	00	00	72
	920	00	06	78
	922	00	01	30
	910	00	00	92
	901	00	03	24
	902	00	03	44
	900	00	01	92
	899	00	04	85
	898	00	02	16
	895	00	03	52
	894	00	03	58
	893	00	03	12

	886/1170	00	01	68
पुर्शुडा	2073	00	10	40
	2074	00	02	78
	2072	00	08	30
	2031	00	13	88
	1629	00	02	12
	1318	00	00	56
	1317/2103	00	00	10
	1319	00	05	96
	1320	00	02	20
	1378	00	09	38
	1377	00	02	30
	1384	00	00	10
	1385	00	07	64
	1386	00	02	22
	1399	00	04	90
	1398	00	08	75
	1397	00	08	74
	1188	00	03	98
	1189	00	06	85
	1187	00	06	40
	1186	00	03	92
	1185	00	02	00
	1183	00	01	94
	1184	00	03	68
	1181	00	00	26
	1180	00	05	62
	1179	00	01	26
	1178	00	03	52
	1175	00	00	60
	1150	00	02	12
	1147	00	00	15

	1148	00	04	62
	1149	00	02	92
	1141	00	01	38
	1142	00	02	00
	1143	00	00	22
	1140	00	01	76
	894	00	01	85
	893	00	04	58
	892	00	03	06
	891	00	00	38
	873	00	04	12
	872	00	00	75
	871	00	05	68
	874	00	02	36
	863	00	05	35
	864	00	02	90
	865	00	02	60
	835	00	04	62
	834	00	03	00
	833	00	02	26
	832	00	01	56
	830/2153	00	00	44
	837	00	02	06
	809	00	10	48
	782	00	11	18
	785	00	03	90
	786	00	01	80
	787	00	02	26
	781	00	06	82
	773/2118	00	01	02
	367	00	03	06
	366	00	05	54
	364	00	01	78
	368/2089	00	00	10
	363	00	03	02

	362	00	03	38
	361	00	01	68
रायहोसेनपुर	128	00	00	82
	366	00	00	38
	131	00	06	60
	132	00	03	98
	133	00	02	12
	134	00	07	40
	135	00	00	10
	136	00	03	34
	137	00	03	34
	129	00	04	18
	145	00	18	56
	147	00	00	90
	148	00	04	10
	149	00	11	88
	151	00	03	40
	152	00	06	78
	152/439	00	01	58
	159	00	01	42
	162	00	02	24
	163	00	02	60
	164	00	02	12
	165	00	03	74
	37	00	07	42
	37/434	00	02	36
	45	00	05	34
	44	00	03	52
	46	00	05	20
	43	00	00	12
	47	00	04	98
	48	00	00	60
	50	00	01	38
	36/433	00	00	54
	49	00	05	22
	35	00	04	56

	33	00	15	34
	31	00	00	48
	60	00	00	66
	30	00	00	10
	23	00	04	88
	23/431	00	00	85
	22	00	02	60
	25	00	00	40
	24	00	02	22
	9	00	00	18
	10	00	01	55
	11	00	00	15
बराकुरी	2837	00	10	50
	2554	00	24	42
	2488	00	02	34
	2487	00	07	78
	2490	00	01	00
	2508	00	00	72
	2492	00	09	87
	2507	00	00	62
	2506	00	03	21
	2501	00	04	10
	2502	00	00	64
	2504	00	05	54
	2503	00	00	82
	2500	00	03	48
	3841/3858	00	01	30
	3836	00	07	50
	3836/3944	00	03	80
	3821	00	19	34
	3822	00	06	02
	3818	00	12	92
	3820	00	01	92
	3819/3943	00	05	08
	3819	00	01	26

	3807	00	00	42
	981	00	11	52
	980	00	09	96
	979	00	03	75
	968/3870	00	06	00
	978/3871	00	05	48
	974	00	01	28
	972	00	05	28
	970	00	05	48
	971	00	07	72
	959	00	02	95
	491	00	37	40
	496	00	08	50
	498	00	31	95
	958	00	00	94
	716	00	11	35
	691	00	00	28
	692	00	00	62
	699	00	02	80
	697	00	02	85
	696	00	00	10
	698	00	07	46
	664	00	19	60
	665	00	07	26
	643	00	04	64
	645	00	03	08
	646	00	02	96
	647	00	01	80
	648	00	01	40
	662	00	04	64
	652	00	00	58
	653	00	11	14
	657	00	01	60
	621	00	10	70
	589	00	01	78
	587	00	02	38

	586	00	00	92
	585	00	03	85
	584	00	02	20
	583	00	03	64
	582	00	05	95
	581	00	02	16
	593	00	02	08
	580	00	03	90
	579	00	00	36
	577	00	03	55
	576	00	03	76
	575	00	02	80
ब्रागाशोला	1640/4563	00	05	64
	1641/1714	00	00	20
	1640	00	09	12
	1639/4561	00	03	48
	1639	00	01	70
	1638	00	00	64
	1637	00	02	74
	1506	00	07	06
	1507	00	01	22
	1505	00	07	50
	1495	00	00	32
	1494	00	07	06
	1493	00	00	10
	1483	00	03	30
	1482	00	02	66
	1481	00	03	56
	1480	00	02	26
	1479	00	02	38
	1478	00	03	16
	1477	00	03	42
	1476	00	03	74
	1475	00	02	44
	1474	00	06	72

	1467	00	03	56
	1468	00	10	66
	1470	00	06	45
	1393	00	02	86
	1394	00	05	78
	1395	00	00	20
	1396	00	02	00
	1398	00	03	44
	1397	00	08	10
	1142/4378	00	13	22
	1132	00	00	36
	1140	00	00	10
	1141	00	03	96
	1124	00	03	70
	1142/4379	00	02	96
	1149	00	04	28
	1150	00	05	06
	1153	00	00	92
	1118	00	03	36
	1152	00	02	10
	1096	00	05	04
	1117	00	01	00
	1105/1720	00	06	86
	1106	00	01	70
	1105	00	05	30
	1104	00	00	28
	1103	00	00	50
	1097	00	03	44
	1717	00	01	90
	647	00	02	56
	652	00	00	88
	644	00	00	60
	653	00	18	40
	655	00	03	04
	643	00	09	18
	656/4302	00	01	44

	656/4301	00	00	26
	656	00	04	78
	642	00	01	38
	641	00	04	74
	345	00	06	14
	344	00	06	06
	313	00	01	32
	310/4265	00	04	70
	311/4266	00	00	46
	310	00	13	22
	318	00	00	30
	308	00	01	20
	306	00	13	96
	224	00	00	48
	321	00	02	26
	223	00	01	42
	93	00	08	74
	94	00	09	94
	86	00	07	70
	97	00	02	04
	98	00	13	50
	81	00	04	20
	80	00	05	64
	79	00	02	10
	75	00	05	36
	74	00	06	38
	73/350	00	01	04
	73	00	00	65
	72	00	00	60
	68	00	01	92
	69	00	03	72
	71	00	00	12
	70	00	05	12
	50	00	19	02
	43	00	03	12

	47	00	05	12
	46	00	04	30
	50/4217	00	04	02
	44	00	05	44
	38/360	00	04	02
	38	00	04	48
	54/4218	00	07	68
	55	00	01	22
	3064/3680	00	02	14
	3061	00	04	14
	3062	00	01	96
	3060	00	04	65
	3059	00	05	92
	3058	00	08	66
	3057	00	00	10
	3054	00	01	38
	3053	00	04	46
	3052	00	05	62
	3048	00	02	58
	3047	00	11	44
	3044	00	00	82
	3043	00	01	64
	2986	00	12	30
	3042	00	00	96
	3041	00	00	92
	2987	00	10	46
	3040	00	09	16
	3039/4564	00	07	56
मुजराकोण्डा	263	00	02	50
	264	00	00	46
	260	00	03	50
	262	00	06	72
	261	00	10	42
	244	00	01	28
	251	00	01	56
	245	00	05	34

	248	00	00	92
	247	00	03	22
	249	00	00	20
	246	00	03	52
	240	00	00	94
	220	00	18	40
	180	00	07	56
	187	00	00	12
	186	00	00	75
	182	00	03	95
	181	00	03	98
	173	00	06	68
	175	00	04	88
	174	00	05	52
	145	00	06	45
	144	00	03	72
	29	00	04	86
	30	00	03	22
	28	00	05	15
	27	00	15	56
पेरुआ	694/772	00	05	44
	336	00	00	80
	468	00	01	58
	473	00	20	30
	472	00	08	28
	471	00	14	40
	476	00	00	44
	459	00	14	64
	458	00	01	68
	447	00	01	32
	459	00	02	00
	450	00	00	40
	448	00	04	12
	451	00	04	24
	452	00	02	94

	453	00	03	75
रुपुषपुर	2522	00	04	92
	2523	00	09	62
	2516	00	06	82
	2500	00	00	45
	2499	00	04	58
	2501	00	02	32
	2497	00	02	02
	2498	00	05	60
	2494	00	15	74
	2493	00	19	62
	2478	00	01	26
	2477	00	00	68
	2474	00	06	08
	2473/2559	00	03	78
	2473	00	01	50
	2472	00	03	40
	2473/2556	00	01	40
	2473/2555	00	02	10
कोडालिकारा	581	00	03	08
	580/649	00	00	18
	577	00	02	34
	579	00	05	25
	578	00	02	62
	578/657	00	03	90
	575	00	00	40
	572	00	10	38
	571	00	01	68
	565	00	02	88
	560	00	01	74
	564	00	01	28
	561	00	04	40
	562	00	00	30
	554	00	01	08
	557	00	02	42
	555	00	02	75

	556	00	03	56
	548	00	03	74
	530	00	03	60
	531	00	04	64
	546	00	08	80
	139	00	01	64
	544	00	06	68
	543	00	05	38
	142	00	01	20
	143	00	00	75
	144	00	03	40
	85	00	01	76
	145	00	33	42
	78	00	00	20
	76	00	03	42
	43	00	00	20
	24	00	12	26
	176	00	05	46
	25	00	01	24
	20	00	14	92
	21	00	02	40
	16	00	00	50
	15	00	04	05
	13	00	00	10
	14	00	02	36
	11	00	10	28
चुआगार	1616	00	11	25
	1615	00	04	28
	1609	00	20	48
	1606	00	02	50
	1607	00	04	04
	1603	00	00	28
	1604	00	00	44
	1605	00	00	86
	1583	00	06	86
	1575	00	00	52
	1582	00	00	10
	1577	00	12	70
	1547	00	06	52

	1548	00	03	16
	1549	00	00	28
	1553	00	01	62
	1552	00	03	66
	1550	00	16	90
	1551	00	01	28
	631	00	00	42
	629	00	00	36
	610/2290	00	00	20
धोलाशिमूल	87	00	15	24
	88	00	04	38
	83	00	01	72
पुटका	1347/2528	00	03	50
	1347	00	03	26
	1257	00	08	72
	1255	00	07	70
	1254	00	01	72
	1264	00	03	64
	1262	00	00	12
	1267	00	17	62
	1266	00	00	30
	1234	00	24	70
	1272	00	05	12
	1273	00	03	74
	1212/2477	00	04	10
	1274	00	01	22
	1275	00	03	80
	1213	00	05	30
	1212	00	02	42
	1214	00	02	86
	1211	00	03	10
	1210	00	10	45
	1207	00	02	00
	271	00	02	96
	270	00	05	86
	272	00	00	10
	269	00	01	06
	262	00	03	98
	263	00	07	10
	258	00	03	62

	265	00	00	52
	264	00	03	02
	202	00	01	38
	184	00	02	58
	190	00	14	22
	189	00	00	70
	193	00	00	96
	171	00	02	90
	172	00	05	02
	178	00	00	10
	174	00	03	06
	173	00	04	66

[फा. सं. आर-11025(11)/241/2017-ओआर-II/ई-17681]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

S.O. 4122(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Dist. Birbhum in the State of West Bengal for 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG Product;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Biswanath Samajder, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited. (Pipelines Division), P.O, Duillya, Andul - Mouri, Mourigram, Howrah, 711-302 (West Bengal)

SCHEDULE				
Tehsil : DUBRAJPUR	District : BIRBHUM	State : WEST BENGAL		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
Chitgaon	425	00	02	20
	424	00	02	90
	208/463	00	16	98
	405/462	00	00	70
	405/461	00	09	02
	405	00	08	06
	404	00	00	10
	363	00	11	86

	364	00	00	64
	365	00	05	38
	362	00	02	46
	366	00	02	68
	367	00	07	30
	368	00	02	56
	355	00	01	92
	369	00	01	00
	354	00	06	26
	353	00	02	82
	351	00	00	52
	352	00	01	40
	340/444	00	00	20
	340	00	11	22
	344	00	03	44
	341	00	03	22
	335	00	03	98
	334	00	05	95
	270	00	02	45
	333	00	01	52
	256	00	00	70
	330	00	00	45
	332	00	06	90
	260	00	00	16
	307	00	03	96
	289	00	01	80
	288	00	00	42
	290	00	04	22
	287	00	01	48
	282	00	07	34
	292	00	01	90
	293	00	04	48
	294	00	03	20
	296	00	01	64
Dakshin Madanpur	1465	00	00	28
	1334	00	16	86
	1327	00	03	76
	1332	00	00	10
	1335	00	09	42
	1331	00	04	92
	1336	00	09	98
	1232/1415	00	01	45
	1222	00	05	86
	1223	00	02	68
	1220	00	05	65
	1225	00	03	05
	1219	00	01	74
	1097	00	05	08
	1213	00	00	10
	1106	00	04	92
	1107	00	01	56

	1105	00	01	78
	1099	00	03	85
	1100	00	02	85
	1094	00	02	06
	1093	00	04	22
	1091	00	04	66
	1087	00	00	75
	1088	00	02	08
	1089	00	01	46
	1086	00	01	38
	1085	00	02	65
	1084	00	02	22
	1090/1484	00	03	94
	1083	00	00	98
	1078	00	03	24
	1044	00	08	02
	1045	00	04	40
	1049	00	03	10
	999	00	05	62
	998	00	05	55
	1001	00	00	14
	1002	00	02	72
	997	00	02	66
	960	00	15	68
	918/1468	00	07	92
	917	00	10	66
	815/1474	00	15	34
	815	00	09	88
	817	00	04	26
	816	00	06	68
	818	00	06	28
	863	00	02	28
	819	00	03	58
	820	00	03	48
	821	00	00	60
	822	00	03	32
	824	00	01	30
	823	00	08	08
	350	00	02	85
	349	00	04	10
	346	00	03	58
	347	00	02	32
	331	00	02	54
	330	00	03	18
	321	00	02	34
	329	00	04	98
	323	00	00	62
	326	00	01	20
	327	00	04	30
	328	00	04	56

Tehsil : DUBRAJPUR	District : BIRBHUM	State : WEST BENGAL		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
Paigara	1037	00	05	36
	1039	00	03	56
	1039/1145	00	03	26
	1040	00	02	55
	1041	00	05	54
	1044	00	04	06
	1045	00	11	60
	1047	00	04	56
	1048	00	03	84
	1029	00	04	20
	1028	00	03	22
	1018	00	04	16
	1017	00	02	42
	1016	00	03	28
	1014	00	06	82
	1015	00	10	72
	921	00	00	72
	920	00	06	78
	922	00	01	30
	910	00	00	92
	901	00	03	24
	902	00	03	44
	900	00	01	92
	899	00	04	85
	898	00	02	16
	895	00	03	52
	894	00	03	58
	893	00	03	12
	886/1170	00	01	68
Purshunda	2073	00	10	40
	2074	00	02	78
	2072	00	08	30
	2031	00	13	88
	1629	00	02	12
	1318	00	00	56
	1317/2103	00	00	10
	1319	00	05	96
	1320	00	02	20
	1378	00	09	38
	1377	00	02	30
	1384	00	00	10
	1385	00	07	64
	1386	00	02	22
	1399	00	04	90
	1398	00	08	75
	1397	00	08	74
	1188	00	03	98

	1189	00	06	85
	1187	00	06	40
	1186	00	03	92
	1185	00	02	00
	1183	00	01	94
	1184	00	03	68
	1181	00	00	26
	1180	00	05	62
	1179	00	01	26
	1178	00	03	52
	1175	00	00	60
	1150	00	02	12
	1147	00	00	15
	1148	00	04	62
	1149	00	02	92
	1141	00	01	38
	1142	00	02	00
	1143	00	00	22
	1140	00	01	76
	894	00	01	85
	893	00	04	58
	892	00	03	06
	891	00	00	38
	873	00	04	12
	872	00	00	75
	871	00	05	68
	874	00	02	36
	863	00	05	35
	864	00	02	90
	865	00	02	60
	835	00	04	62
	834	00	03	00
	833	00	02	26
	832	00	01	56
	830/2153	00	00	44
	837	00	02	06
	809	00	10	48
	782	00	11	18
	785	00	03	90
	786	00	01	80
	787	00	02	26
	781	00	06	82
	773/2118	00	01	02
	367	00	03	06
	366	00	05	54
	364	00	01	78
	368/2089	00	00	10
	363	00	03	02
	362	00	03	38
	361	00	01	68

Rayhosenpur	128	00	00	82
	366	00	00	38
	131	00	06	60
	132	00	03	98
	133	00	02	12
	134	00	07	40
	135	00	00	10
	136	00	03	34
	137	00	03	34
	129	00	04	18
	145	00	18	56
	147	00	00	90
	148	00	04	10
	149	00	11	88
	151	00	03	40
	152	00	06	78
	152/439	00	01	58
	159	00	01	42
	162	00	02	24
	163	00	02	60
	164	00	02	12
	165	00	03	74
	37	00	07	42
	37/434	00	02	36
	45	00	05	34
	44	00	03	52
	46	00	05	20
	43	00	00	12
	47	00	04	98
	48	00	00	60
	50	00	01	38
	36/433	00	00	54
	49	00	05	22
	35	00	04	56
	33	00	15	34
	31	00	00	48
	60	00	00	66
	30	00	00	10
	23	00	04	88
	23/431	00	00	85
	22	00	02	60
	25	00	00	40
	24	00	02	22
	9	00	00	18
	10	00	01	55
	11	00	00	15
Barakuri	2837	00	10	50
	2554	00	24	42
	2488	00	02	34
	2487	00	07	78
	2490	00	01	00

	2508	00	00	72
	2492	00	09	87
	2507	00	00	62
	2506	00	03	21
	2501	00	04	10
	2502	00	00	64
	2504	00	05	54
	2503	00	00	82
	2500	00	03	48
	3841/3858	00	01	30
	3836	00	07	50
	3836/3944	00	03	80
	3821	00	19	34
	3822	00	06	02
	3818	00	12	92
	3820	00	01	92
	3819/3943	00	05	08
	3819	00	01	26
	3807	00	00	42
	981	00	11	52
	980	00	09	96
	979	00	03	75
	968/3870	00	06	00
	978/3871	00	05	48
	974	00	01	28
	972	00	05	28
	970	00	05	48
	971	00	07	72
	959	00	02	95
	491	00	37	40
	496	00	08	50
	498	00	31	95
	958	00	00	94
	716	00	11	35
	691	00	00	28
	692	00	00	62
	699	00	02	80
	697	00	02	85
	696	00	00	10
	698	00	07	46
	664	00	19	60
	665	00	07	26
	643	00	04	64
	645	00	03	08
	646	00	02	96
	647	00	01	80
	648	00	01	40
	662	00	04	64
	652	00	00	58
	653	00	11	14
	657	00	01	60

	621	00	10	70
	589	00	01	78
	587	00	02	38
	586	00	00	92
	585	00	03	85
	584	00	02	20
	583	00	03	64
	582	00	05	95
	581	00	02	16
	593	00	02	08
	580	00	03	90
	579	00	00	36
	577	00	03	55
	576	00	03	76
	575	00	02	80
Bagashola	1640/4563	00	05	64
	1641/1714	00	00	20
	1640	00	09	12
	1639/4561	00	03	48
	1639	00	01	70
	1638	00	00	64
	1637	00	02	74
	1506	00	07	06
	1507	00	01	22
	1505	00	07	50
	1495	00	00	32
	1494	00	07	06
	1493	00	00	10
	1483	00	03	30
	1482	00	02	66
	1481	00	03	56
	1480	00	02	26
	1479	00	02	38
	1478	00	03	16
	1477	00	03	42
	1476	00	03	74
	1475	00	02	44
	1474	00	06	72
	1467	00	03	56
	1468	00	10	66
	1470	00	06	45
	1393	00	02	86
	1394	00	05	78
	1395	00	00	20
	1396	00	02	00
	1398	00	03	44
	1397	00	08	10
	1142/4378	00	13	22
	1132	00	00	36
	1140	00	00	10
	1141	00	03	96

	1124	00	03	70
	1142/4379	00	02	96
	1149	00	04	28
	1150	00	05	06
	1153	00	00	92
	1118	00	03	36
	1152	00	02	10
	1096	00	05	04
	1117	00	01	00
	1105/1720	00	06	86
	1106	00	01	70
	1105	00	05	30
	1104	00	00	28
	1103	00	00	50
	1097	00	03	44
	1717	00	01	90
	647	00	02	56
	652	00	00	88
	644	00	00	60
	653	00	18	40
	655	00	03	04
	643	00	09	18
	656/4302	00	01	44
	656/4301	00	00	26
	656	00	04	78
	642	00	01	38
	641	00	04	74
	345	00	06	14
	344	00	06	06
	313	00	01	32
	310/4265	00	04	70
	311/4266	00	00	46
	310	00	13	22
	318	00	00	30
	308	00	01	20
	306	00	13	96
	224	00	00	48
	321	00	02	26
	223	00	01	42
	93	00	08	74
	94	00	09	94
	86	00	07	70
	97	00	02	04
	98	00	13	50
	81	00	04	20
	80	00	05	64
	79	00	02	10
	75	00	05	36
	74	00	06	38
	73/350	00	01	04
	73	00	00	65

	72	00	00	60
	68	00	01	92
	69	00	03	72
	71	00	00	12
	70	00	05	12
	50	00	19	02
	43	00	03	12
	47	00	05	12
	46	00	04	30
	50/4217	00	04	02
	44	00	05	44
	38/360	00	04	02
	38	00	04	48
	54/4218	00	07	68
	55	00	01	22
	3064/3680	00	02	14
	3061	00	04	14
	3062	00	01	96
	3060	00	04	65
	3059	00	05	92
	3058	00	08	66
	3057	00	00	10
	3054	00	01	38
	3053	00	04	46
	3052	00	05	62
	3048	00	02	58
	3047	00	11	44
	3044	00	00	82
	3043	00	01	64
	2986	00	12	30
	3042	00	00	96
	3041	00	00	92
	2987	00	10	46
	3040	00	09	16
	3039/4564	00	07	56
Mujrakonda	263	00	02	50
	264	00	00	46
	260	00	03	50
	262	00	06	72
	261	00	10	42
	244	00	01	28
	251	00	01	56
	245	00	05	34
	248	00	00	92
	247	00	03	22
	249	00	00	20
	246	00	03	52
	240	00	00	94
	220	00	18	40
	180	00	07	56
	187	00	00	12

	186	00	00	75
	182	00	03	95
	181	00	03	98
	173	00	06	68
	175	00	04	88
	174	00	05	52
	145	00	06	45
	144	00	03	72
	29	00	04	86
	30	00	03	22
	28	00	05	15
	27	00	15	56
Perua	694/772	00	05	44
	336	00	00	80
	468	00	01	58
	473	00	20	30
	472	00	08	28
	471	00	14	40
	476	00	00	44
	459	00	14	64
	458	00	01	68
	447	00	01	32
	459	00	02	00
	450	00	00	40
	448	00	04	12
	451	00	04	24
	452	00	02	94
	453	00	03	75
Rupushpur	2522	00	04	92
	2523	00	09	62
	2516	00	06	82
	2500	00	00	45
	2499	00	04	58
	2501	00	02	32
	2497	00	02	02
	2498	00	05	60
	2494	00	15	74
	2493	00	19	62
	2478	00	01	26
	2477	00	00	68
	2474	00	06	08
	2473/2559	00	03	78
	2473	00	01	50
	2472	00	03	40

	2473/2556	00	01	40
	2473/2555	00	02	10
Kodalikara	581	00	03	08
	580/649	00	00	18
	577	00	02	34
	579	00	05	25
	578	00	02	62
	578/657	00	03	90
	575	00	00	40
	572	00	10	38
	571	00	01	68
	565	00	02	88
	560	00	01	74
	564	00	01	28
	561	00	04	40
	562	00	00	30
	554	00	01	08
	557	00	02	42
	555	00	02	75
	556	00	03	56
	548	00	03	74
	530	00	03	60
	531	00	04	64
	546	00	08	80
	139	00	01	64
	544	00	06	68
	543	00	05	38
	142	00	01	20
	143	00	00	75
	144	00	03	40
	85	00	01	76
	145	00	33	42
	78	00	00	20
	76	00	03	42
	43	00	00	20
	24	00	12	26
	176	00	05	46
	25	00	01	24
	20	00	14	92
	21	00	02	40
	16	00	00	50
	15	00	04	05
	13	00	00	10
	14	00	02	36

	11	00	10	28
Chuagar	1616	00	11	25
	1615	00	04	28
	1609	00	20	48
	1606	00	02	50
	1607	00	04	04
	1603	00	00	28
	1604	00	00	44
	1605	00	00	86
	1583	00	06	86
	1575	00	00	52
	1582	00	00	10
	1577	00	12	70
	1547	00	06	52
	1548	00	03	16
	1549	00	00	28
	1553	00	01	62
	1552	00	03	66
	1550	00	16	90
	1551	00	01	28
	631	00	00	42
	629	00	00	36
	610/2290	00	00	20
Dholashimul	87	00	15	24
	88	00	04	38
	83	00	01	72
Putka	1347/2528	00	03	50
	1347	00	03	26
	1257	00	08	72
	1255	00	07	70
	1254	00	01	72
	1264	00	03	64
	1262	00	00	12
	1267	00	17	62
	1266	00	00	30
	1234	00	24	70
	1272	00	05	12
	1273	00	03	74
	1212/2477	00	04	10
	1274	00	01	22
	1275	00	03	80
	1213	00	05	30
	1212	00	02	42
	1214	00	02	86

	1211	00	03	10
	1210	00	10	45
	1207	00	02	00
	271	00	02	96
	270	00	05	86
	272	00	00	10
	269	00	01	06
	262	00	03	98
	263	00	07	10
	258	00	03	62
	265	00	00	52
	264	00	03	02
	202	00	01	38
	184	00	02	58
	190	00	14	22
	189	00	00	70
	193	00	00	96
	171	00	02	90
	172	00	05	02
	178	00	00	10
	174	00	03	06
	173	00	04	66

[F. No. R-11025(11)/241/2017-OR-II/E-17681]

PAWAN KUMAR, Under Secy.